

ऑप वैन जब्त

वेशियों की चोरी कर भेज

ल व राहुल से पछताछ से पता चला है। में एक संगठित गैंग का काम करता है। से अधिक मवेशियों की चोरी की घटना गोरक्षक समिति जमशेदपुर महानगर-प्रमुख शहर के विभिन्न इलाकों से एक सौ से लोगों द्वारा इसकी लगातार शिकायतें ता भी लगा रही थीं। लोगों को अलर्ट कर आज सूचना मिली कि पिकऑप वैन में गया है। समिति के सदस्यों ने पिकऑप पकड़ा गया। पकड़ने वालों में गोरक्षक ष कुमार धमेन्द्र यादव, राकेश और अन्य

गल में मवेशियों को हैं छुपाकर

सा हुआ कि चोरी के गौवंशीय मवेशियों भेजने का धंधा चलता है। वे लोग इसके से गौवंशी मवेशियों को चोरी कर बिहार की घटनाओं को रात के समय अंजाम को चोरी की जाती थी, जो घर से बाहर रात के वक्त ही उन्हें आदित्यपुर के जहां से उन्हें वाहनों में लोडकर बिहार ज दिया जाता था।

का पीछा किया और बजरंग चौक के

का प्रशिक्षण



प्रवेश प्रतिबंधित होगा। कॉलेज परिसर में प्रपान, गुटखा, पान, शराब आदि का सेवन तबद्धित होगा तथा किसी भी प्रकार का प्लनशील पदार्थ लेकर आना भी वर्जित गा, मतगणना कक्ष में पानी का बौतल, पेय गर्थ, खाद्य सामग्री पैकेट वर्जित होगा, त्रगणना प्रारंभ होने के बाद मतगणना समाप्ति पश्चात ही अपना निर्धारित टेबुल छोड़ेंगे।

पास रोक लिया। उसका कहना है कि जीतेन्द्र यादव उन लोगों को लेकर बिरसानगर आया था। उसका कहना था कि कुछ पशुओं को लेकर आदित्यपुर आना है।

अवसाद, उदासीविता, निराशा एवं आत्महत्या संबंधित मामलों में भावनात्मक सहारा प्रदाय करता है

25, क्यू रोड, सिन्धुपुर, जमशेदपुर 831001

हेल्पलाइन : 9297777499/500

ई-मेल : jeevanjamshedpur@gmail.com



बीकॉउंस वल्व वलड (यू.के.)

वीकॉउंस इंडिया

RSD FINANCE LIMITED

CIN - L17222JH1963PLC013316

Registered Office : H. No - 4, The Alcor Hotel, Ramdas Bhatta, Jamshedpur, Purbi Singhbhum, Jharkhand - 831001 Tel no : 0657- 6620001, +91 7280009199

Email id: rsdfinance.ltd@gmail.com, website: www.rsdfinancelimited.com.

STATEMENT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER/ HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2019

(Rs. In Lakhs except per share detail)

SR. NO.	PARTICULARS	CONSOLIDATED		
		Quarter Ended	Half Year Ended	Quarter Ended
		30-Sep-19	30-Sep-19	30-Sep-18
		Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited
1	Total income from operations (net)	1914.81	3463.27	1223.06
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	450.31	687.44	10.46
3	Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	450.31	687.44	262.19
4	Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	387.82	559.28	213.71
5	Total Comprehensive income for the Period [Comprehensive Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	280.12	356.48	138.66
6	Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- each)	647.32	647.32	647.32
7	Earnings Per Share (after Extraordinary items) (in Rs.)			
	Basic:	4.33	5.51	2.14
	Diluted:	4.33	5.51	2.14

Note:

- The above is an extract of the detailed format of Quaterly Results filed with the Stock Exchange for the Quarter & Half Year ended September 30, 2019 under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the website of the Stock Exchange (www.bseindia.com) & on the website of the Company (www.rsdfinancelimited.com).
- The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 14th December, 2019.
- The Company has adopted Indian Accounting Standards (Ind-AS) notified under Section 133 of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended till date, from 1st April 2019, with the transition date of 1st April 2018. Such transaction has been carried out from the erstwhile Accounting Standards notified under the Act, read with the relevant rules issued thereunder and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') (collectively referred to as 'the previous GAAP').

(Rs. In Lakhs)

SR. NO.	PARTICULARS	STANDALONE		
		Quarter Ended	Half Year Ended	Quarter Ended
		30-Sep-19	30-Sep-19	30-Sep-18
		Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited
1	Turnover	78.57	128.18	104.65
2	Profit / (Loss) before tax	26.27	26.98	55.48
3	Profit / (Loss) after tax	21.30	21.83	43.38

For and on behalf of the Board
Sd/-

Rajeev Singh Dugal
Managing Director
DIN - 00052037

Place : Jamshedpur
Dated : 14.12.2019